

सार्वजनिक सूचना

स्नातक फार्मसी अभिरुचि परीक्षा (जीपैट)-2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र

23 दिसंबर 2020

स्नातक फार्मसी अभिरुचि परीक्षा (जीपैट)-2021 एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। इसका आयोजन एम. फार्मा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए होता है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा स्नातक फार्मसी अभिरुचि परीक्षा(जीपैट)-2021 के आयोजन का विवरण निम्न प्रकार है :

दिनांक, परीक्षा शुल्क एवं आवेदन प्रक्रिया:

जीपैट -2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि	23 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021
परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि (केनरा / आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग और पेटीएम भुगतान मोड के माध्यम से रात 11:50 बजे तक)	23 जनवरी 2021
ऑनलाइन आवेदन पत्र के विवरण में सुधार की तिथि	25-30 जनवरी 2021
परीक्षा तिथि	22/27 फरवरी 2021
परीक्षा की अवधि	180 मिनट (3.00 घंटे)
परीक्षा का समय	09:00 (प्रातः) से 12:00 (दोपहर) तक या 3.00 (दोपहर) से 6.00 (शाम) तक
परीक्षा का मोड	कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड
प्रश्न पत्र का माध्यम	अंग्रेजी
पाठ्यक्रम	परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम एआईसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाएगा

परीक्षा शुल्क का विवरण :

सामान्य (अनारक्षित)	पुरुष- ₹ 2000 / -	महिला- ₹ 1000 / -
सामान्य -ईडब्ल्यूएस / एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी / ओबीसी- (एनसीएल)	पुरुष- ₹ 1000 / -	महिला- ₹ 1000 / -
	ट्रांसजेंडर - ₹ 1000/-	

महत्वपूर्ण निर्देश:

- (i) अभ्यर्थी केवल "ऑनलाइन" मोड के माध्यम से जीपैट -2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी अन्य मोड में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन फार्म भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन फॉर्म किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (iii) अभ्यर्थी, जो जीपैट -2021 की परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं, वे विस्तृत जानकारी हेतु जीपैट की सूचना बुलेटिन जो निम्न वेबसाइट: gpat.nta.nic.in/www.nta.ac.in पर उपलब्ध है, देख सकते हैं।

(Handwritten Signature)

(डॉ. साधना पाराशर)
वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा)